

# Rev

## Chapter 16

Hindi Interlinear

Reference: Hindi Easy-to-Read Version

- 1 Καὶ ἤκουσα μεγάλης φωνῆς ἐκ τοῦ ναοῦ, λεγούσης τοῖς ἑπτά ἀγγέλοις,  
और मैंने-सुना बड़ी आवाज़ से उस मन्दिर कहती-हुई उन सात स्वर्गदूतों-से  
[G2532](#) [G0191](#) [G3173](#) [G5456](#) [G1537](#) [G3588](#) [G3485](#) [G3004](#) [G3588](#) [G2033](#) [G0032](#)
- Ἔπαγετε, καὶ ἐκχέετε τὰς ἑπτά φιάλας τοῦ θυμοῦ τοῦ Θεοῦ εἰς τὴν  
जाओ और उंडेलो उन सात कटोरों-को उस क्रोध उस परमेश्वर-के पर उस  
[G5217](#) [G2532](#) [G1632](#) [G3588](#) [G2033](#) [G5357](#) [G3588](#) [G2372](#) [G3588](#) [G2316](#) [G1519](#) [G3588](#)
- γῆν.  
पृथ्वी  
[G1093](#)

फिर मैंने सुना कि मन्दिर में से एक ऊँचा स्वर उन सात दूतों से कह रहा है, "जाओ और परमेश्वर के प्रकोप के सातों कटोरों को धरती पर उँडेल दो।"

- 2 Καὶ ἀπῆλθεν ὁ πρῶτος, καὶ ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ εἰς τὴν γῆν;  
और चला-गया वह पहला और उंडेला उसका कटोरा उसका पर उस पृथ्वी  
[G2532](#) [G0565](#) [G3588](#) [G4413](#) [G2532](#) [G1632](#) [G3588](#) [G5357](#) [G0846](#) [G1519](#) [G3588](#) [G1093](#)
- καὶ ἐγένετο ἔλκος, κακὸν καὶ πονηρὸν, ἐπὶ τοῦ ἀνθρώπου τοῦ ἐχοντα  
और हुआ फोड़ा बुरा और दुष्ट पर उन मनुष्यों उन रखनेवालों  
[G2532](#) [G1096](#) [G1668](#) [G2556](#) [G2532](#) [G4190](#) [G1909](#) [G3588](#) [G0444](#) [G3588](#) [G2192](#)
- τὸ χάραγμα τοῦ θηρίου, καὶ τοῦ προσκυνοῦντος τῆ εἰκόνι αὐτοῦ.  
वह चिह्न उस पशु-का और उन पूजनेवालों उस मूर्ति-को उसकी  
[G3588](#) [G5480](#) [G3588](#) [G2342](#) [G2532](#) [G3588](#) [G4352](#) [G3588](#) [G1504](#) [G0846](#)

सो पहला दूत गया और उसने धरती पर अपना कटोरा उँडेल दिया। परिणामस्वरूप उन लोगों के, जिन पर उस पशु का चिन्ह अंकित था और जो उसकी मूर्ति को पूजते थे, भयानक पीड़ापूर्ण छाले फूट आये।

- 3 Καὶ ὁ δεύτερος ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ εἰς τὴν θάλασσαν; καὶ  
और वह दूसरेने उंडेला उसका कटोरा उसका पर उस समुद्र और  
[G2532](#) [G3588](#) [G1208](#) [G1632](#) [G3588](#) [G5357](#) [G0846](#) [G1519](#) [G3588](#) [G2281](#) [G2532](#)
- ἐγένετο αἷμα, ὡς νεκροῦ; καὶ πᾶσα ψυχὴ ζωῆς ἀπέθανεν, τὰ ἐν τῇ  
हुआ लहू जैसा मृत-का और हर प्राण जीवन-का मर-गया वे में उस  
[G1096](#) [G0129](#) [G5613](#) [G3498](#) [G2532](#) [G3956](#) [G5590](#) [G2222](#) [G0599](#) [G3588](#) [G1722](#) [G3588](#)
- θαλάσση.  
समुद्र  
[G2281](#)

इसके पश्चात् दूसरे दूत ने अपना कटोरा समुद्र पर उँडेल दिया और सागर का जल मरे हुए व्यक्ति के लहू के रूप में बदल गया और समुद्र में रहने वाले सभी जीवजन्तु मारे गए।

- 4 Καὶ ὁ τρίτος ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ εἰς τοὺς ποταμούς, καὶ τὰς  
और वह तीसरेने उंडेला उसका कटोरा उसका पर उन नदियों और उन  
[G2532](#) [G3588](#) [G5154](#) [G1632](#) [G3588](#) [G5357](#) [G0846](#) [G1519](#) [G3588](#) [G4215](#) [G2532](#) [G3588](#)
- πηγὰς τῶν ὑδάτων; καὶ ἐγένετο αἷμα.  
झरनों उन पानियों-की और हुआ लहू  
[G4077](#) [G3588](#) [G5204](#) [G2532](#) [G1096](#) [G0129](#)

फिर तीसरे दूत ने नदियों और जल झरनों पर अपना कटोरा उँडेल दिया। और वे लहू में बदल गए

5 Καὶ ἤκουσα τοῦ ἀγγέλου τῶν ὑδάτων λέγοντος, Δίκαιος εἶ, ὁ ὢν,  
 और मैंने-सुना उस स्वर्गदूत उन पानियों-के कहते-हुए धार्मिक हैं वह जो-है  
[G2532](#) [G0191](#) [G3588](#) [G0032](#) [G3588](#) [G5204](#) [G3004](#) [G1342](#) [G1510](#) [G3588](#) [G1510](#)

καὶ ὁ ἦν, ὁ Ὅσιος, ὅτι ταῦτα ἔκρινας.  
 और वह जो-था वह पवित्र क्योंकि ये तूने-न्याय-किया  
[G2532](#) [G3588](#) [G1510](#) [G3588](#) [G3741](#) [G3754](#) [G3778](#) [G2919](#)

तभी मैंने जल के स्वामी स्वर्गदूत को यह कहते सुना: “वह तू ही है जो न्यायी है, जो था सदा-सदा से, तू ही है जो पवित्र। तूने जो किया है वह न्याय है।”

6 ὅτι αἷμα ἀγίων καὶ προφητῶν ἐδέχεαν, καὶ αἷμα αὐτοῖς δέδωκας  
 क्योंकि लहू पवित्रों-का और भविष्यद्वक्ताओं-का उन्होंने-बहाया और लहू उन्हें तूने-दिया  
[G3754](#) [G0129](#) [G0040](#) [G2532](#) [G4396](#) [G1632](#) [G2532](#) [G0129](#) [G0846](#) [G1325](#)

πιεῖν; ἄξιοί εἰσιν.  
 पीने-को योग्य वे-हैं  
[G4095](#) [G0514](#) [G1510](#)

उन्होंने संत जनों का और नबियों का लहू बहाया। तू न्यायी है तूने उनके पीने को बस रक्त ही दिया, क्योंकि वे इसी के योग्य रहे।”

7 Καὶ ἤκουσα τοῦ θουσιαστηρίου λέγοντος, Ναί, Κύριε ὁ Θεός ὁ  
 और मैंने-सुना उस वेदी कहती-हुई हाँ प्रभु वह परमेश्वर वह  
[G2532](#) [G0191](#) [G3588](#) [G2379](#) [G3004](#) [G3483](#) [G2962](#) [G3588](#) [G2316](#) [G3588](#)

Παντοκράτωρ, ἀληθινὰ καὶ δίκαια αἶ κρίσεις σου.  
 सर्वशक्तिमान सच्ची और धार्मिक वे न्याय तेरे  
[G3841](#) [G0228](#) [G2532](#) [G1342](#) [G3588](#) [G2920](#) [G4771](#)

फिर मैंने वेदी से आते हुए ये शब्द सुने: “हाँ, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर! तेरे न्याय सच्चे और नेक हैं।”

8 Καὶ ὁ τέταρτος ἐδέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ἥλιον; καὶ ἐδόθη  
 और वह चौथेने उंडेला उसका कटोरा उसका पर उस सूर्य और दिया-गया  
[G2532](#) [G3588](#) [G5067](#) [G1632](#) [G3588](#) [G5357](#) [G0846](#) [G1909](#) [G3588](#) [G2246](#) [G2532](#) [G1325](#)

αὐτῷ καυματίσαι τοὺς ἀνθρώπους ἐν πυρί.  
 उसे झुलसाने-को उन मनुष्यों-को में आग  
[G0846](#) [G2739](#) [G3588](#) [G0444](#) [G1722](#) [G4442](#)

फिर चौथे दूत ने अपना कटोरा सूरज पर उँडेल दिया। सो उसे लोगों को आग से जला डालने की शक्ति प्रदान कर दी गयी।

9 καὶ ἐκαυματίσθησαν οἱ ἄνθρωποι καῦμα μέγα, καὶ ἐβλασφήμησαν τὸ  
 और झुलसाए-गए वे मनुष्य ताप बड़े और उन्होंने-निन्दा-की वह  
[G2532](#) [G2739](#) [G3588](#) [G0444](#) [G2738](#) [G3173](#) [G2532](#) [G0987](#) [G3588](#)

ὄνομα τοῦ Θεοῦ, τοῦ ἔχοντος τὴν ἐξουσίαν ἐπὶ τὰς πληγὰς ταύτας,  
 नाम उस परमेश्वर-का उस रखनेवाले वह अधिकार पर उन विपत्तियों इन  
[G3686](#) [G3588](#) [G2316](#) [G3588](#) [G2192](#) [G3588](#) [G1849](#) [G1909](#) [G3588](#) [G4127](#) [G3778](#)

καὶ οὐ μετενόησαν δοῦναι αὐτῷ δόξαν.  
 और नहीं पश्चाताप-किया देने-को उसे महिमा  
[G2532](#) [G3756](#) [G3340](#) [G1325](#) [G0846](#) [G1391](#)

और लोग भयानक गर्मी से झुलसने लगे। उन्होंने परमेश्वर के नाम को कोसा क्योंकि इन विनाशों पर उसी का नियन्त्रण है। किन्तु उन्होंने कोई मन न फिराया और न ही उसे महिमा प्रदान की।

10	Καὶ	ὁ	πέμπτος	ἐξέχεεν	τὴν	φιάλην	αὐτοῦ	ἐπὶ	τὸν	θρόνον	τοῦ
	और	वह	पाँचवेंने	उंडेला	उसका	कटोरा	उसका	पर	उस	सिंहासन	उस
	<a href="#">G2532</a>	<a href="#">G3588</a>	<a href="#">G3991</a>	<a href="#">G1632</a>	<a href="#">G3588</a>	<a href="#">G5357</a>	<a href="#">G0846</a>	<a href="#">G1909</a>	<a href="#">G3588</a>	<a href="#">G2362</a>	<a href="#">G3588</a>
	θηρίου;	καὶ	ἐγένετο	ἡ	βασίλεια	αὐτοῦ	ἐσκοτωμένη;	καὶ	ἐμασῶντο	τὰς	
	पशु-के	और	हुआ	वह	राज्य	उसका	अंधकारमय	और	वे-चबा-रहे-थे	उनकी	
	<a href="#">G2342</a>	<a href="#">G2532</a>	<a href="#">G1096</a>	<a href="#">G3588</a>	<a href="#">G0932</a>	<a href="#">G0846</a>	<a href="#">G4656</a>	<a href="#">G2532</a>	<a href="#">G3145</a>	<a href="#">G3588</a>	
	γλώσσας	αὐτῶν	ἐκ	τοῦ	πόνου;						
	जीभों	उनकी	से	उस	पीड़ा						
	<a href="#">G1100</a>	<a href="#">G0846</a>	<a href="#">G1537</a>	<a href="#">G3588</a>	<a href="#">G4192</a>						

इसके पश्चात् पाँचवे दूत ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उँडेल दिया और उस का राज्य अंधकार में डूब गया। लोगों ने पीड़ा के मारे अपनी जीभ काट ली।

11	καὶ	ἐβλασφήμησαν	τὸν	Θεὸν	τοῦ	οὐρανοῦ	ἐκ	τῶν	πόνων	αὐτῶν,		
	और	उन्होंने-निन्दा-की	उस	परमेश्वर-की	उस	स्वर्ग-के	से	उन	पीड़ाओं	उनके		
	<a href="#">G2532</a>	<a href="#">G0987</a>	<a href="#">G3588</a>	<a href="#">G2316</a>	<a href="#">G3588</a>	<a href="#">G3772</a>	<a href="#">G1537</a>	<a href="#">G3588</a>	<a href="#">G4192</a>	<a href="#">G0846</a>		
	καὶ	ἐκ	τῶν	ἐλκῶν	αὐτῶν;	καὶ	οὐ	μετενόησαν	ἐκ	τῶν	ἔργων	αὐτῶν.
	और	से	उन	फोड़ों	उनके	और	नहीं	पश्चाताप-किया	से	उन	कामों	उनके
	<a href="#">G2532</a>	<a href="#">G1537</a>	<a href="#">G3588</a>	<a href="#">G1668</a>	<a href="#">G0846</a>	<a href="#">G2532</a>	<a href="#">G3756</a>	<a href="#">G3340</a>	<a href="#">G1537</a>	<a href="#">G3588</a>	<a href="#">G2041</a>	<a href="#">G0846</a>

अपनी-अपनी पीड़ाओं और छालों के कारण उन्होंने स्वर्ग के परमेश्वर की भर्त्सना तो की, किन्तु अपने कर्मों के लिए मन न फिराया।

12	Καὶ	ὁ	ἕκτος	ἐξέχεεν	τὴν	φιάλην	αὐτοῦ	ἐπὶ	τὸν	ποταμὸν	τὸν	μέγαν
	और	वह	छठेने	उंडेला	उसका	कटोरा	उसका	पर	उस	नदी	उस	बड़ी
	<a href="#">G2532</a>	<a href="#">G3588</a>	<a href="#">G1623</a>	<a href="#">G1632</a>	<a href="#">G3588</a>	<a href="#">G5357</a>	<a href="#">G0846</a>	<a href="#">G1909</a>	<a href="#">G3588</a>	<a href="#">G4215</a>	<a href="#">G3588</a>	<a href="#">G3173</a>
	<τὸν>	Εὐφράτην;	καὶ	ἐξηράνθη	τὸ	ὔδωρ	αὐτοῦ,	ἵνα	ἐτοιμασθῆ	ἡ	ὁδὸς	
	उस	फरात	और	सूख-गया	वह	पानी	उसका	ताकि	तैयार-हो	वह	मार्ग	
	<a href="#">G3588</a>	<a href="#">G2166</a>	<a href="#">G2532</a>	<a href="#">G3583</a>	<a href="#">G3588</a>	<a href="#">G5204</a>	<a href="#">G0846</a>	<a href="#">G2443</a>	<a href="#">G2090</a>	<a href="#">G3588</a>	<a href="#">G3598</a>	
	τῶν	βασιλέων	τῶν	ἀπὸ	ἀνατολῆς	ἡλίου.						
	उन	राजाओं-का	उन	से	उदय	सूर्य-के						
	<a href="#">G3588</a>	<a href="#">G0935</a>	<a href="#">G3588</a>	<a href="#">G0575</a>	<a href="#">G0395</a>	<a href="#">G2246</a>						

फिर छठे दूत ने अपना कटोरा फरात नामक महानदी पर उँडेल दिया और उसका पानी सूख गया। इससे पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो गया।

13	Καὶ	εἶδον	ἐκ	τοῦ	στόματος	τοῦ	δράκοντος,	καὶ	ἐκ	τοῦ	στόματος
	और	मैंने-देखा	से	उस	मुँह	उस	अजगर-के	और	से	उस	मुँह
	<a href="#">G2532</a>	<a href="#">G3708</a>	<a href="#">G1537</a>	<a href="#">G3588</a>	<a href="#">G4750</a>	<a href="#">G3588</a>	<a href="#">G1404</a>	<a href="#">G2532</a>	<a href="#">G1537</a>	<a href="#">G3588</a>	<a href="#">G4750</a>
	τοῦ	θηρίου,	καὶ	ἐκ	τοῦ	στόματος	τοῦ	ψευδοπροφήτου,	πνεύματα	τρία	
	उस	पशु-के	और	से	उस	मुँह	उस	झूठे-भविष्यद्वक्ता-के	आत्माएँ	तीन	
	<a href="#">G3588</a>	<a href="#">G2342</a>	<a href="#">G2532</a>	<a href="#">G1537</a>	<a href="#">G3588</a>	<a href="#">G4750</a>	<a href="#">G3588</a>	<a href="#">G5578</a>	<a href="#">G4151</a>	<a href="#">G5140</a>	
	ἀκάθαρτα,	ὡς	βάτραχοι;								
	अशुद्ध	जैसे	मेंढक								
	<a href="#">G0169</a>	<a href="#">G5613</a>	<a href="#">G0944</a>								

फिर मैंने देखा कि उस विशालकाय अजगर के मुख से, उस पशु के मुख से और कपटी नबियों के मुख से तीन दुष्टात्माएँ निकलीं, जो मेंढक के समान दिख रही थीं।

- 14 εἰσὶν γὰρ πνεύματα δαιμονίων ποιοῦντα σημεῖα, ἃ ἐκπορεύεται ἐπὶ τοὺς  
 हैं क्योंकि आत्माएँ दुष्टात्माओं-की करती-हुई चिह्न जो जाती-हैं पर उन  
[G1510](#) [G1063](#) [G4151](#) [G1140](#) [G4160](#) [G4592](#) [G3739](#) [G1607](#) [G1909](#) [G3588](#)
- βασιλεῖς τῆς οἰκουμένης ὅλης, συναγαγεῖν αὐτοὺς εἰς τὸν πόλεμον τῆς  
 राजाओं उस जगत समूची इकट्ठा-करने-को उन्हें में उस युद्ध उस  
[G0935](#) [G3588](#) [G3625](#) [G3650](#) [G4863](#) [G0846](#) [G1519](#) [G3588](#) [G4171](#) [G3588](#)
- ἡμέρας τῆς μεγάλης τοῦ Θεοῦ τοῦ Παντοκράτορος.  
 दिन-के उस बड़े उस परमेश्वर-के उस सर्वशक्तिमान  
[G2250](#) [G3588](#) [G3173](#) [G3588](#) [G2316](#) [G3588](#) [G3841](#)

ये शैतानी दुष्ट आत्माएँ थीं और उनमें चमत्कार दिखाने की शक्ति थी। वे समूचे संसार के राजाओं को परम शक्तिमान परमेश्वर के महान दिन, युद्ध करने के लिए एकत्र करने को निकल पड़ीं।

- 15 Ἴδου, ἔρχομαι ὡς κλέπτῃς. μακάριος ὁ γρηγορῶν, καὶ τηρῶν τὰ  
 देखो मैं-आता-हूँ जैसे चोर धन्य वह जागता-रहनेवाला और रखता-हुआ उन  
[G3708](#) [G2064](#) [G5613](#) [G2812](#) [G3107](#) [G3588](#) [G1127](#) [G2532](#) [G5083](#) [G3588](#)
- ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ, ἵνα μὴ γυμνὸς περιπατῆ, καὶ βλέπωσιν τὴν ἀσχημοσύνην  
 वस्त्रों उसके ताकि नहीं नग्न चले और वे-देखें उसकी लज्जा  
[G2440](#) [G0846](#) [G2443](#) [G3361](#) [G1131](#) [G4043](#) [G2532](#) [G0991](#) [G3588](#) [G0808](#)
- αὐτοῦ.  
 उसकी  
[G0846](#)

“सावधान! मैं दबे पाँव आकर तुम्हें अचरज में डाल दूँगा। वह धन्य है जो जागता रहता है, और अपने वस्त्रों को अपने साथ रखता है ताकि वह नंगा न फिरे और लोग उसे लज्जित होते न देखें।”

- 16 καὶ συνήγαγεν αὐτοὺς εἰς τὸν τόπον τὸν καλούμενον Ἑβραῖστί  
 और उसने-इकट्ठा-किया उन्हें में उस स्थान उस कहलाते-हुए इब्रानी-में  
[G2532](#) [G4863](#) [G0846](#) [G1519](#) [G3588](#) [G5117](#) [G3588](#) [G2564](#) [G1447](#)
- Ἄρμαγεδών.  
 हर-मगिदोन  
[G0717](#)

इस प्रकार वे दुष्टात्माएँ उन राजाओं को इकट्ठा करके उस स्थान पर ले आईं, जिसे इब्रानी भाषा में हरमगिदोन कहा जाता है।

- 17 Καὶ ὁ ἔβδομος ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ἀέρα; καὶ ἐξῆλθεν  
 और वह सातवेंने उँडेला उसका कटोरा उसका पर उस वायु और निकली  
[G2532](#) [G3588](#) [G1442](#) [G1632](#) [G3588](#) [G5357](#) [G0846](#) [G1909](#) [G3588](#) [G0109](#) [G2532](#) [G1831](#)
- φωνὴ μεγάλη ἐκ τοῦ ναοῦ ἀπὸ τοῦ θρόνου, λέγουσα, Γέγονεν!  
 आवाज़ बड़ी से उस मन्दिर से उस सिंहासन कहती-हुई हो-गया  
[G5456](#) [G3173](#) [G1537](#) [G3588](#) [G3485](#) [G0575](#) [G3588](#) [G2362](#) [G3004](#) [G1096](#)

इसके बाद सातवें दूत ने अपना कटोरा हवा में उँडेल दिया और सिंहासन से उत्पन्न हुई एक घनघोर ध्वनि मन्दिर में से यह कहती निकली, “यह समाप्त हो गया।”

- 18 καὶ ἐγένοντο ἀστραπαὶ, καὶ φωναί, καὶ βρονταί; καὶ σεισμὸς ἐγένετο  
 और हुई बिजलियाँ और आवाज़ें और गरज और भूकंप हुआ  
[G2532](#) [G1096](#) [G0796](#) [G2532](#) [G5456](#) [G2532](#) [G1027](#) [G2532](#) [G4578](#) [G1096](#)
- μέγας, οἷος οὐκ ἐγένετο, ἀφ' οὗ ἄνθρωπος ἐγένετο ἐπὶ τῆς γῆς,  
 बड़ा ऐसा नहीं हुआ जबसे जब मनुष्य हुआ पर उस पृथ्वी  
[G3173](#) [G3634](#) [G3756](#) [G1096](#) [G0575](#) [G3739](#) [G0444](#) [G1096](#) [G1909](#) [G3588](#) [G1093](#)
- τηλικοῦτος σεισμὸς, οὕτω μέγας.  
 ऐसा भूकंप इतना बड़ा  
[G5082](#) [G4578](#) [G3779](#) [G3173](#)

तभी बिजली कौंधने लगी, गड़गड़ाहट और मेघों का गर्जन-तर्जन होने लगा तथा एक बड़ा भूचाल भी आया। मनुष्य के इस धरती पर प्रकट होने के बाद का यह सबसे भयानक भूचाल था।

- 19 καὶ ἐγένετο ἡ πόλις ἡ μεγάλη εἰς τρία μέρη; καὶ αἱ πόλεις  
और हुआ वह नगर वह बड़ा में तीन भागों और वे नगर  
[G2532](#) [G1096](#) [G3588](#) [G4172](#) [G3588](#) [G3173](#) [G1519](#) [G5140](#) [G3313](#) [G2532](#) [G3588](#) [G4172](#)
- τῶν ἐθνῶν ἔπαεσαν; καὶ Βαβυλῶν ἡ μεγάλη ἐμνήσθη ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ,  
उन जातियों-के गिरे और बाबुल वह बड़ी याद-की-गई साम्हने उस परमेश्वर-के  
[G3588](#) [G1484](#) [G4098](#) [G2532](#) [G0897](#) [G3588](#) [G3173](#) [G3403](#) [G1799](#) [G3588](#) [G2316](#)
- δοῦναι αὐτῇ τὸ ποτήριον τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς ὀργῆς αὐτοῦ.  
देने-को उसे वह कटोरा उस दाखरस उस क्रोध उस क्रोध-का उसका  
[G1325](#) [G0846](#) [G3588](#) [G4221](#) [G3588](#) [G3631](#) [G3588](#) [G2372](#) [G3588](#) [G3709](#) [G0846](#)

वह महान् नगरी तीन टुकड़ों में बिखर गयी तथा अधर्मियों के नगर ध्वस्त हो गए। परमेश्वर ने बाबुल की महानगरी को दण्ड देने के लिए याद किया था। ताकि वह उसे अपने भभकते क्रोध की मदिरा से भरे प्याले को उसे दे दे।

- 20 καὶ πᾶσα νῆσος ἔφυγεν; καὶ ὄρη οὐχ εὐρέθησαν;  
और हर टापू भाग-गया और पहाड़ नहीं पाए-गए  
[G2532](#) [G3956](#) [G3520](#) [G5343](#) [G2532](#) [G3735](#) [G3756](#) [G2147](#)

सभी द्वीप लुप्त हो गए। किसी पहाड़ तक का पता नहीं चल पा रहा था।

- 21 καὶ χάλαζα μεγάλη, ὡς ταλαντιαία, καταβαίνει ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐπὶ  
और ओला बड़ा जैसे तोल-भर उतरता-है से उस स्वर्ग पर  
[G2532](#) [G5464](#) [G3173](#) [G5613](#) [G5006](#) [G2597](#) [G1537](#) [G3588](#) [G3772](#) [G1909](#)
- τοὺς ἀνθρώπους; καὶ ἐβλασφήμησαν οἱ ἄνθρωποι τὸν Θεόν, ἐκ τῆς  
उन मनुष्यों और उन्होंने-निन्दा-की वे मनुष्य उस परमेश्वर-की से उस  
[G3588](#) [G0444](#) [G2532](#) [G0987](#) [G3588](#) [G0444](#) [G3588](#) [G2316](#) [G1537](#) [G3588](#)
- πληγῆς τῆς χαλάζης, ὅτι μεγάλη ἐστὶν ἡ πληγὴ αὐτῆς σφόδρα.  
विपत्ति उस ओलों-की क्योंकि बड़ी है वह विपत्ति उसकी बहुत  
[G4127](#) [G3588](#) [G5464](#) [G3754](#) [G3173](#) [G1510](#) [G3588](#) [G4127](#) [G0846](#) [G4970](#)

चालीस चालीस किलो के ओले, आकाश से लोगों पर पड़ रहे थे। ओलों के इस महाविनाश के कारण लोग परमेश्वर को कोस रहे थे क्योंकि यह एक भयानक विपत्ति थी।